



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 फाल्गुन 1933 (श०)
(सं० पटना 63) पटना, शुक्रवार, 24 फरवरी 2012

सं० 1/सा०सु०बजट-04/2010 (अंश) स.क.—287

समाज कल्याण विभाग

(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

संकल्प

6 फरवरी 2012

विषय:—विपन्न वर्ग के विकलांग निःशक्तजनों के लिए विशेष कृत्रिम अंग एवं उपकरण उपलब्ध कराने के लिए संचालित “मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना” के प्रावधानों में संशोधन।

1. उच्चतम आयु सीमा का विलोपन :— इस योजना के लाभ से 60 वर्ष से अधिक आयुवाले निःशक्त व्यक्तियों को अधिक आयु के कारण वंचित रखना युक्तिसंगत नहीं है। इसलिए आयु की अर्हता में 60 वर्ष की सीमा को विलोपित किया जाता है। 14 वर्ष से कम आयु के विकलांग बालक—बालिकाओं को शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत लाभान्वित करने का कार्यक्रम संचालित है, इसलिए न्यूनतम आयु सीमा यथावत् रहेगी।

2. कृत्रिम अंग एवं उपकरणों की आपूर्ति के लिए केवल “एलिमको, कानपुर” पर आश्रित रहना व्यावहारिक दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है। क्योंकि यह संस्था सभी प्रकार के अंगों—उपकरणों को समय पर आपूर्ति एवं आपूर्ति की गयी सामग्रियों के रख रखाव में सक्षम नहीं हो पा रही है। तिपहिया साईकिल इत्यादि की आपूर्ति अन्य स्ट्रोतों से भी प्राप्त की जा सकती है। इसी प्रकार कुछ विशेष अंग एवं उपकरण अन्य निर्माणकर्ताओं एवं एजेंसियों से भी प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ सकती है। अतः योजना के क्रियान्वयन हेतु इस मार्गदर्शी प्रावधान कि अंगों एवं उपकरणों की आपूर्ति “एलिमको, कानपुर” से प्राप्त की जायगी, को शिथिल करते हुए “एलिमको,

कानपुर” के अलावे अन्य निर्माणकर्त्ताओं एवं आपूर्तिकर्त्ताओं से भी कृत्रिम अंग एवं उपकरण का क्रय संलग्न मार्गदर्शिका में अंकित प्रावधानों के अनुरूप किया जायगा।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
संदीप पौण्डरीक,
सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 63-571+500-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>